



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 पौष 1945 (श10)

(सं0 पटना 22) पटना, शुक्रवार, 5 जनवरी 2024

सं० 02/रेगु-03-900-02/2023-1214
गन्ना उद्योग विभाग

संकल्प

10 नवम्बर 2023

विषय :- माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में लौरिया डिस्टीलरी, प० चम्पारण के कर्मियों के बकाये वेतनादि भुगतान हेतु एक्जिट सेटलमेन्ट योजना (Exit Settlement Plan) के प्रस्ताव पर स्वीकृति।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस०एल०पी० (सी०) सं०-16344/2018 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम सुशील कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य तथा एस०एल०पी० (सी०) सं०-16711/2018 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम लाल बाबू मिश्रा एवं अन्य वाद में पारित न्यायादेश एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-08.03.2018 को एल०पी०ए० सं०-70/2014 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम सुशील कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य तथा एल०पी०ए० सं०-327/2014 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम लाल बाबू मिश्रा एवं अन्य द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में चीनी मिलों के कर्मियों के अनुरूप लौरिया डिस्टीलरी के कर्मियों के बकाये वेतनादि के भुगतान हेतु एक्जिट सेटलमेन्ट योजना/लाभ योजना (Exit Settlement Plan/Benefit Scheme) का लाभ दिया जाना है।

उल्लेखनीय है कि विभागीय संलेख ज्ञापांक-2250 दिनांक-23.12.2008 में सन्निहित प्रस्ताव यथा बिहार राज्य चीनी निगम लि० के अधीन बंद इकाइयों एवं आष्वनियों को लम्बी अवधि की लीज पर हस्तांतरण के क्रम में इकाइयों के कर्मियों के एक्जिट सेटलमेन्ट योजना (Exit Settlement Plan) पर राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-30.12.2008 में मद संख्या-02 के रूप में स्वीकृति के उपरान्त विभागीय पत्रांक-15 दिनांक-05.01.2009 द्वारा निर्गत है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय संलेख ज्ञापांक-2250 दिनांक-23.12.2008 की कंडिका-6 द्वारा चीनी मिल के कर्मियों के लिए पूर्व में स्वीकृत एक्जिट सेटलमेन्ट योजना (Exit Settlement Plan) के अनुरूप लौरिया डिस्टीलरी के कर्मियों के लिए एक्जिट सेटलमेन्ट योजना (Exit Settlement Plan) के अन्तर्गत देयताओं के भुगतान की व्यवस्था निम्न रूप से की जाती है:-

(क) सीजनल कर्मी :

लौरिया डिस्टीलरी में सीजनल कर्मी नहीं है।

(ख) स्थायी कर्मी:-

- (i) माह मार्च 2003 से सेवा निवृत्ति तिथि/अंतिम तिथि (Cut off Date) 31 अक्टूबर, 2008 तक के बकाये वेतन एवं भविष्य निधि अंशदान का भुगतान।
- (ii) सेवा निवृत्ति तिथि/अंतिम तिथि (Cut off Date) 31 अक्टूबर, 2008 तक उपार्जित छुट्टी के वेतन का भुगतान।
- (iii) सेवा निवृत्ति तिथि/अंतिम तिथि (Cut off Date) 31 अक्टूबर, 2008 तक ग्रेच्यूटी एक्ट के तहत अनुमान्य ग्रेच्यूटी का भुगतान।
- (iv) सेवा निवृत्ति तिथि/अंतिम तिथि (Cut off Date) 31 अक्टूबर, 2008 तक बोनस एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत न्यूनतम बोनस का भुगतान।
- (v) लौरिया डिस्टीलरी के लिए अंतिम तिथि (Cut off Date) 31 अक्टूबर, 2008 रहेगा।
- (vi) एक्जिट सेटलमेन्ट योजना/लाभ योजना (Exit Settlement Plan/Benefit Scheme) के तहत स्थायी कर्मियों को निम्नलिखित रूप से अतिरिक्त लाभ दिया जाना है :-
 1. पाँच वर्षों तक की सेवा अवशेष वाले कर्मियों को चार माह का वेतन।
 2. पाँच से दस वर्षों तक की सेवा अवशेष वाले कर्मियों को छः माह का वेतन।
 3. दस वर्षों से अधिक वर्षों तक की सेवा अवशेष वाले कर्मियों को नौ माह का वेतन।
 लौरिया डिस्टीलरी के कर्मियों के सेवान्त लाभ/एक्जिट (Exit) लाभ की गणना 31 अक्टूबर, 2008 में देय वेतन के आधार पर किया जायेगा।

(ग) कैजुअल/दैनिक मजदूर :

कैजुअल/दैनिक मजदूरों को उनके कार्य अवधि का बकाया मजदूरी का भुगतान।

(घ) अन्यान्य :

- (i) अंतिम तिथि (Cut off Date) 31 अक्टूबर, 2008 तक जिन कर्मचारियों के जिम्मे उनके द्वारा लिया गया अग्रिम बकाया है, उसकी एकमुश्त कटौती कर्मियों से भुगतान के समय कर ली जाएगी।
- (ii) डिस्टीलरी स्तर से ही एकमुश्त भुगतान कर एक्जिट सेटलमेन्ट योजना/लाभ योजना (Exit Settlement Plan/Benefit Scheme) का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि का उपबंध बिहार आकस्मिकता निधि के माध्यम से प्राप्त कर व्यय किया जा सकेगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नर्मदेश्वर लाल,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 22-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>